

Lev

Chapter 18

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
और-बोला यहोवा से-मूसा कहते-हुए
H1696 H3068 H0413 H4872 H0559

यहोवा ने मूसा से कहा,

2 דָּבַר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם יְהוָה אֲנִי מֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם:
बोल से-बोला इस्राएल-के पुत्रों मैं यहोवा तुम्हारा-परमेश्वर
H1696 H0413 H3478 H0559 H0413 H3068 H0589 H0430

“इस्राएल के लोगों से कहो: मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।

3 כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ-מִצְרַיִם אֲשֶׁר מִצְרַיִם כָּנְעַן תַּעֲשׂוּ וְכַמַּעֲשֵׂה אֶרֶץ-כְּנָעַן לֹא תַעֲשׂוּ
कैसे-कार्य देश-मिस्र जिसमें मिस्र देश-कनान नहीं उसमें रहते-थे-तुम-करोगे नहीं
H4639 H0776 H4714 H3427 H3808 H0776 H0776 H0776

4 אֲשֶׁר אֲנִי מְבִיא אֲתֶכֶם מִבְּרִיא לֵאמֹר: לֹא תֵשְׂבֹה וְאָמַרְתָּ לְבָרְכָהּ
जिसमें मैं ले-जा-रहा-हूँ तुम्हें वहां नहीं करोगे और-उनकी-विधियों-में नहीं
H0589 H0935 H0853 H08033 H3808 H2708 H3808 H3212

यहाँ आने के पहले तुम लोग मिस्र में थे। तुम्हें वह नहीं करना चाहिए जो वहाँ हुआ करता था! मैं तुम लोगों को कनान ले जा रहा हूँ। तुम लोगों को वह नहीं करना है जो उस देश में किया जाता है।

5 אֶת-מִשְׁפָּטֵי מִצְרַיִם וְאֶת-תַּעֲשׂוֹתֵיהֶם וְאֶת-חֻקֵּי מִצְרַיִם וְאֶת-חֻקֵּי כְּנָעַן
को-मेरे-नियम और-को-मेरी-विधियाँ और-को-पालन-करोगे और-उनकी-विधियाँ
H0853 H4941 H0853 H2708 H0853 H8104 H8104 H3212 H0589 H3068 H0430

तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना चाहिए। और मेरे नियमों के अनुसार चलना चाहिए। उन नियमों के अनुसार चलना चाहिए। उन नियमों के पालन में सावधान रहो! क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।

6 וְשִׁמְרֶתְם אֶת-חֻקֵּי וְאֶת-מִשְׁפָּטֵי אֲשֶׁר יֵעֲשֶׂה אִתְּכֶם הָאָדָם וְיָחַד
और-पालन-करोगे और-पालन-करोगे मेरी-विधियों और-को-मेरी-विधियों और-को-मेरी-विधियों
H8104 H0853 H2708 H0853 H0853 H4941 H0853 H0853 H0120 H2425

7 אֲנִי יְהוָה: אֲנִי יְהוָה: אֲנִי יְהוָה:
मैं यहोवा मैं यहोवा मैं यहोवा
H0589 H3068 H0589 H3068 H0589 H3068

इसलिए तुम्हें मेरे नियमों और निर्णयों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मेरे विधियों और नियमों का पालन करता है तो वह जीवित रहेगा! मैं यहोवा हूँ!

8 אִישׁ אִישׁ אֶת-כָּל-שְׂאֵר בְּשָׂרוֹ לֹא תִקְרַב וְלִגְלוֹת עָרְוָה
कोई-भी व्यक्ति से-किसी-भी-रक्त-सम्बन्धी अपने-शरीर-के नहीं निकट-आओगे उघाड़ने-को नग्नता
H0376 H0376 H0413 H3605 H7607 H1320 H3808 H7126 H1540 H6172

9 אֲנִי יְהוָה: אֲנִי יְהוָה:
मैं यहोवा मैं यहोवा
H0589 H3068 H0589 H3068

“तुम्हें अपने निकट सम्बन्धियों से कभी यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ।

תגלה उघाड़ोगे	לא नहीं	הוא है-वह	אמני अपनी-माता	תגלה उघाड़ोगे	לא नहीं	אמני अपनी-माता-की	וערות और-नग्नता	אביו अपने-पिता-की	ערות नग्नता	7
H1540	H3808	H1931	H0517	H1540	H3808	H0517	H6172	H0001	H6172	

ס : ערותה:
— उसकी-नग्नता
[H6172](#)

“तुम्हें अपने पिता का अपमान नहीं करना चाहिए अर्थात् तुम्हें अपनी माता के साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।

ס	הוא :	אביו	ערות	תגלה	לא	אביו	אשת-	ערות	8
—	है-वह	अपने-पिता-की	नग्नता	उघाड़ोगे	नहीं	अपने-पिता-की	पत्नी-की-	नग्नता	
	H1931	H0001	H6172	H1540	H3808	H0001	H0802	H6172	

तुम्हें अपनी विमाता से भी यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। पिता की पत्नी से यौन सम्बन्ध केवल तुम्हारे पिता के लिए है।

או	בית	מולדת	אמני	בת-	או	אביו	בת-	אחותי	ערות	9
या	घर-में	जन्मी-हुई	अपनी-माता-की	बेटी-	या	अपने-पिता-की	बेटी-	अपनी-बहन-की	नग्नता	
		H4138	H0517	H1323		H0001	H1323	H0269	H6172	

ס : ערותו:
— उनकी-नग्नता

תגלה	לא	חוץ	מולדת	10
उघाड़ोगे	नहीं	बाहर	जन्मी-हुई	
H6172	H1540	H3808	H2351	H4138

“तुम्हें अपने पिता या माँ की पुत्री अर्थात् अपनी बहन से यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। इससे अन्तर नहीं पड़ता कि तुम्हारी उस बहन का पालन पोषण तुम्हारे घर हुआ या किसी अन्य जगह।

כי	ערותו	תגלה	לא	בת-	או	בני	בת-	ערות	10
क्योंकि	उनकी-नग्नता	उघाड़ोगे	नहीं	अपनी-बेटी-की	या	अपने-पुत्र-की	बेटी-की-	नग्नता	
	H6172	H1540	H3808	H1323			H1323	H6172	

ס : הנה:
— हैं-वे
[H2007](#) [H6172](#)

“तुम्हें अपने नाती पोतियों से यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। वे बच्चे तुम्हारे अंग हैं!

תגלה	לא	הוא	אחותי	אביו	מולדת	אביו	אשת	בת-	ערות	11
उघाड़ोगे	नहीं	है-वह	अपनी-बहन	अपने-पिता-से	जन्मी-हुई	अपने-पिता-की	पत्नी-की	बेटी-की-	नग्नता	
H1540	H3808	H1931	H0269	H0001	H4138	H0001	H0802	H1323	H6172	

ס : ערותה:
— उसकी-नग्नता
[H6172](#)

“यदि तुम्हारे पिता और उनकी पत्नी की कोई पुत्री है तो वह तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।

ס	הוא :	אביו	שאר	תגלה	לא	אביו	אחות-	ערות	12
—	है-वह	अपने-पिता-की	रक्त-सम्बन्धी	उघाड़ोगे	नहीं	अपने-पिता-की	बहन-की-	नग्नता	
	H1931	H0001	H7607	H1540	H3808	H0001	H0269	H6172	

“अपने पिता की बहन के साथ तुम्हारा यौन सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। वह तुम्हारे पिता के गोत्र की है।

ס	הוא :	אמני	שאר	כי-	תגלה	לא	אמני	אחות-	ערות	13
—	है-वह	अपनी-माता-की	रक्त-सम्बन्धी	क्योंकि-	उघाड़ोगे	नहीं	अपनी-माता-की	बहन-की-	नग्नता	
	H1931	H0517	H7607		H1540	H3808	H0517	H0269	H6172	

तुम्हें अपनी माँ की बहन के साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। वह तुम्हारी माँ के गोत्र की है।

הוא : है-वह H1931	הַחָמֵשׁ अपनी-चाची H1733	תְּקַרֵּב निकट-आओगे H7126	לֹא नहीं H3808	אִשְׁתּוֹ उसकी-पत्नी H0802	אֵל- से- H0413	תִּגְדֹּלֶה उघाड़ोगे H1540	לֹא नहीं H3808	אָבִיךָ अपने-पिता-के H0001	אָחִיךָ भाई-की- H0251	עֲרֹנָה नग्नता H6172	14
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----

○
—

“तुम्हें अपने पिता के भाई का अपमान नहीं करना चाहिए अर्थात् उसकी पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध के लिए नहीं जाना चाहिए।

○ —	עֲרֹנָה : उसकी-नग्नता H6172	תִּגְדֹּלֶה उघाड़ोगे H1540	לֹא नहीं H3808	הוא है-वह H1931	בְּנֵיךָ अपने-पुत्र-की H0802	אִשְׁתּוֹ पत्नी H1540	תִּגְדֹּלֶה उघाड़ोगे H3808	לֹא नहीं H3618	כִּלְתֵּיךָ अपनी-बहू-की H3618	עֲרֹנָה नग्नता H6172	15
--------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	----------------------------	----

“तुम्हें अपनी पुत्रवधू के साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। वह तुम्हारे पुत्र की पत्नी है। तुम्हें उके साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।

○ —	הוא : है-वह H1931	אָחִיךָ अपने-भाई-की H0251	עֲרֹנָה नग्नता H6172	תִּגְדֹּלֶה उघाड़ोगे H1540	לֹא नहीं H3808	אָחִיךָ अपने-भाई-की H0251	אִשְׁתּוֹ पत्नी-की- H0802	עֲרֹנָה नग्नता H6172	16
--------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----

“तुम्हें अपने भाई की वधू के साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। यह अपने भाई के साथ यौन सम्बन्ध रखने जैसा होगा। केवल तुम्हारा भाई अपनी पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध रक सकता है।

בֵּת बेटी-की- H1323	וְאֵת और-को- H0853	בְּנֵיךָ उसके-पुत्र-की H1323	בֵּת बेटी-की- H1323	אֵת को- H0853	תִּגְדֹּלֶה उघाड़ोगे H1540	לֹא नहीं H3808	וּבְתֵיךָ और-उसकी-बेटी-की H1323	אִשְׁתּוֹ स्त्री-की H0802	עֲרֹנָה नग्नता H6172	17
הוא है-यह H1931	זָמָה दुष्कर्म H2154	הֵנָּה हैं-वे H2007	שְׂאֵרָה रक्त-सम्बन्धी H7608	עֲרֹנָה उसकी-नग्नता H6172	לְנִלְוֹת उघाड़ने-को H1540	תִּקְחוּ लोगे H3947	לֹא नहीं H3808	בְּתֵיךָ उसकी-बेटी-की H1323		

“तुम्हें किसी स्त्री और उसकी पुत्री के साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए और तुम्हें इस स्त्री की पोती से यौन सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। इससे अन्तर नीहं पड़ता कि वह पोती उस स्त्री के पुत्र की या पुत्री की बेटी है। उसकी पोतियाँ उसके गोत्र की हैं। उनके साथ यौन सम्बन्ध करना अनुचित है।

בְּחַיֵּיךָ : उसके-जीवन-में H6172	עָלֶיךָ उस-पर H6172	עֲרֹנָה उसकी-नग्नता H6172	לְנִלְוֹת उघाड़ने-को H1540	לְזָרָר दुख-देने-को H3947	תִּקְחוּ लोगे H3808	לֹא नहीं H3808	אֶחָתְךָ उसकी-बहन H0269	אֵל- से- H0413	וְאִשְׁתּוֹ और-स्त्री H0802	18
---	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------------	----

“जब तक तुम्हारी पत्नी जीवित है, तुम्हें उसकी बहन को दूसरी पत्नी नहीं बनाना चाहिए। यह बहनों को परस्पर शत्रु बना देगा। तुम्हें अपनी पत्नी की बहन से यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।

עֲרֹנָה : उसकी-नग्नता H6172	לְנִלְוֹת उघाड़ने-को H1540	תְּקַרֵּב निकट-आओगे H7126	לֹא नहीं H3808	שְׂמֻאָתָהּ उसकी-अशुद्धता-की H2932	בְּנֵיךָ अशुद्धता-में H5079	אִשְׁתּוֹ स्त्री H0802	וְאֵל- और-से- H0413	19
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	----

“तुम्हें किसी स्त्री के पास उसके मासिकधर्म के समय यौन सम्बन्ध के लिए नहीं जाना चाहिए। वह इस समय अशुद्ध है।

בָּהּ : उससे H2233	לְשֻׂמְאָהּ अशुद्ध-होने-को- H2233	לְזָרָע वंश-के-लिए H7903	שְׂכַבְתָּךָ अपना-वीर्य H7903	תִּתֵּן दोगे H5414	לֹא- नहीं- H3808	עֲמִיתְךָ अपने-पड़ोसी-की H5997	אִשְׁתּוֹ पत्नी H0802	וְאֵל- और-से- H0413	20
--------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----

“तुम्हें अपने पड़ोसी की पत्नी से यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। यह तुम्हें केवल अशुद्ध बनाएगा!

שָׁם नाम H8034	אֵת- को- H0853	תְּחַלֵּל अपवित्र-करोगे H3808	וְלֹא और-नहीं H3808	לְמֹלֵךְ मोलेक-के-लिए H4432	לְהַעֲבִיר चलाने-को H5414	תִּתֵּן दोगे H5414	לֹא- नहीं- H3808	וּמִזְרַעְךָ और-अपने-वंश-में-से H2233	21
						יְהוָה : यहोवा H3068	אֹנִי मैं H0589	אֶלְהֵיךָ अपने-परमेश्वर-का H0430	

“तुम्हें अपने किसी बच्चे को आग द्वारा मोलेक को भेंट नहीं चढाना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम यही दिखाते हो कि तुम अपने यहोवा के नाम का सम्मान नहीं करते! मैं यहोवा हूँ।

וְאֵת זָכָר לֹא תִשָּׂב וְשָׂבַב לְאִשָּׁה תוֹעֵבָה הוּא : 22
 और-के-साथ- पुरुष नहीं लेंगे लेटोगे शयन स्त्री-के घृणित है-यह
[H1931](#) [H8441](#) [H0802](#) [H4904](#) [H7901](#) [H3808](#) [H2145](#) [H0854](#)

“तुम्हें किसी पुरुष के साथ वैसा ही यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए जैसा किसी स्त्री के साथ किया जाता है। यह भयंकर पाप है।

וּבְכָל-בְּהֵמָה לֹא-תִתֶּן שְׂכָבְתָּךְ דָּבָר לְטִמְאַתָּהּ-אֶת-אִשָּׁה לֹא-תֵעָרֵךְ לְפָנָי 23
 और-किसी-भी- पशु नहीं- दोगे अपना-वीर्य उससे और-स्त्री नहीं- खड़ी-होगी सामने
[H6440](#) [H5975](#) [H3808](#) [H0802](#) [H7903](#) [H5414](#) [H3808](#) [H0929](#) [H3605](#)
 :הוא תבל לרבעה בהמה है-यह विकृति सम्भोग-करवाने-को पशु-के
[H1931](#) [H8397](#) [H7250](#) [H0929](#)

“किसी जानवर के साथ तम्हारा यौन सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। यह क्वल तुम्हें घिनौना बना देगा! स्त्री को भी किसी जानवर के साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। यह प्राकृति के विरुद्ध है।

אַל-תִּטְמְאוּ בְּכָל-כִּי אֵלֶּה בְּכָל-הַתְּמָאוֹת אֲנִי 24
 मत- अशुद्ध-होओ इन-सब-में- इनसे इनसे क्योंकि इनसे मैं
[H0589](#) [H0428](#) [H3605](#) [H0428](#) [H3605](#)
 :מפניכם משלה משה-से भेज-रहा-हूँ
[H6440](#) [H7971](#)

“इन अनुचित कामों में से किसी से अपनीको अशुद्ध न करो! मैं उन जातियों को उनके देश से बाहर कर रहा हूँ और मैं उनकी धरती तुम को दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वे लोग वैसे भयंकर पाप करे हैं।

וּתְטַמְאוּ הָאָרֶץ וְתִקַּא עָלֶיהָ עֲוֹנָהּ וְאַפְקַדְתִּי אֶת-הָאָרֶץ מִפְּנֵי 25
 और-अशुद्ध-हुई भूमि-ने और-उगल-दी उस-पर उसका-अधर्म और-दंड-दिया-मैंने भूमि को-
[H3427](#) [H0853](#) [H0776](#) [H6958](#) [H5771](#) [H0776](#)

इसलिए वह देश अशुद्ध हो गया है! वह देश अब उन कामों से ऊब गाय है और वह देश उसमें रहेन वालों को बाहर निकाल फेंक रहा है।

וּשְׂמַרְתֶּם אֹתָם אֶת-חֻקֵּי וְלֹא-תַעֲשׂוּ מִשְׁפָּטַי וְאֵת-מִצְוֹתַי 26
 और-पालन-करोगे तुम को- मेरी-विधियों और-को- मेरे-नियमों और-नहीं करोगे किसी-भी-से-
[H8441](#) [H3605](#) [H3808](#) [H4941](#) [H0853](#) [H2708](#) [H0853](#) [H8104](#)
 :האלה הגור והגור האזרח האלה इन-से रहनेवाला और-परदेशी देशी
[H8432](#) [H1616](#) [H0249](#) [H0428](#)

“इसलिए तुम मेरे नियमों और निर्णयों का पालन करोगे। तुम्हें उन में से कोई भयंकर पाप नहीं करना चाहिए। ये नियम इस्राएल के नागरिकों और जो तम्हारे बीच रहते हैं, उनके लिए है।

וּתְטַמְאוּ לְפָנָי אֲשֶׁר-הָאָרֶץ אֲנִי-עָשָׂה הָאֵל-הַתּוֹעֵבָת כָּל-אֶת-כִּי 27
 और-अशुद्ध-हुई तुमसे-पहले जो भूमि-के मनुष्यों-ने- किया इन-से घृणितों सब- को- क्योंकि
[H6440](#) [H0776](#) [H0376](#) [H0411](#) [H8441](#) [H3605](#) [H0853](#)
 :הארץ भूमि
[H0776](#)

जो लोग तुम से पहले वहाँ रहे उन्होंने वे सभी भयंकर काम किए। जिससे वह धरती गन्दी हो गयी।

28
 אֲשֶׁר הַגּוֹי אֶת-קָאָה כְּאֲשֶׁר אֲתָהּ בְּטִמְאַכֶּם אֶתְכֶם הָאֲרֶץ תִּקְרָא וְלֹא-
 जो जाति को- उगला जैसे उसे अशुद्ध-करने-में-तुम्हारे तुम्हें भूमि उगलेगी और-नहीं-

[H0853](#)

[H6958](#)

[H0853](#)

[H0853](#)

[H0776](#)

[H6958](#)

[H3808](#)

לְפָנֶיכֶם :
 तुमसे-पहले

[H6440](#)

यदि तुम भी वही काम करोगे तो तुम धरती को गंदा बनाओगे। यह तुम लोगों को वैसे ही निकाल बाहर करेगी, जैसे तुमसे पहले रहिन वाली चातियों को किया गया।

29
 הַעֲשֵׂת הַנְּפֹשׁוֹת וְנִכְרְתוּ הָאֱלֹהִים הַתּוֹעֵבוֹת מִכֹּל יַעֲשֶׂה אֲשֶׁר כָּל-כִּי
 करनेवाले प्राण तो-काट-डाले-जाएंगे इन-से घृणितों किसी-भी-से- करेगा जो सब- क्योंकि

[H5315](#)

[H3772](#)

[H0428](#)

[H8441](#)

[H3605](#)

[H3605](#)

מִקִּרְבִּי עִמָּם :
 अपनी-प्रजा-के बीच-से

[H7130](#)

यदि कोई व्यक्ति वैसे भयंकर पाप करता है तो उस व्यक्ति को अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए।

30
 נַעֲשֶׂוּ אֲשֶׁר הַתּוֹעֵבוֹת מִדְּבָרֹת עֲשׂוֹת לְבַלְתִּי מִשְׁמֵרְתִּי אֶת-וּשְׁמֵרְתֶּם
 किया-गया जो घृणितों-की विधियों-से- करना न-करने-को मेरी-आज्ञा को- और-पालन-करोगे

[H8441](#)

[H2708](#)

[H1115](#)

[H4931](#)

[H0853](#)

[H8104](#)

פּ אֵלֵהֶיכֶם : אֲנִי יְהוָה בְּהֶם הַטִּמְאַוּ וְלֹא לְפָנֶיכֶם
 — तुम्हारा-परमेश्वर यहोवा मैं उनसे अशुद्ध-होओ और-नहीं तुमसे-पहले

[H0430](#)

[H3068](#)

[H0589](#)

[H3808](#)

[H6440](#)

अन्य लोगों ने उन भयंकर पापों को किया है। किन्तु मेरे नियमों का पालन करना चाहिए। तुम्हें उन भयंकर पापों में से कोई भी नहीं करना चाहिए। उन भयंकर पापों से अपने को असुद्ध मत बनाओ। मैं तम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।”